

	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)	
295 सत्यमेव जयते	O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GENERAL TAX केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन सातवीं मंजिल, पॉलिटेक्निक के पास, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015	7 th Floor, Central Excise Building Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-380015
 079-26305065		टेलीफैक्स: 079-26305136

रजिस्टर डाक ए.डी. द्वारा

क फाइल संख्या (File No.): V2(ST)295/A-II/2016-17/2011 to 2015
स्थगन आवेदन संख्या(Stay App. No.):
ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): AHM-EXCUS-002-APP-120-17-18
दिनांक (Date): 23/10/2017, जारी करने की तारीख (Date of issue): 30-10-17
श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील-II) द्वारा पारित
Passed by Shri Uma Shanker, Commissioner (Appeals)

ग _____ आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-III), अहमदाबाद, आयुक्तालय द्वारा जारी
मूल आदेश सं----- दिनांक -----से सृजित
Arising out of Order-In-Original No. _STC/15/KM/AC/D-III/16-17_ Dated: 18.01.2017
issued by: Assistant Commr STC(Div-III), Ahmedabad.

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

M/s Akshar Travels Pvt Ltd

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:

(1) (क) (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए।

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रक्रिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हों।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

- (ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से

रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty, or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER - IN - APPEAL

M/s Akshar Travels Pvt Ltd, 2nd Floor, City Centre, Nr. Swastik Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad (henceforth, "*appellant*") has filed the present appeal against the Order-in-Original No.STC/15/KM/AC/D-III/16-17 dated 18.01.2017 (henceforth, "*impugned order*") passed by the Assistant Commissioner, Service Tax, Division-III, Ahmedabad (henceforth, "*adjudicating authority*").

2. To state briefly, the facts of the case are that the appellant, having service tax registration for providing tour operator service, accommodation in hotels, Inns, etc., was also engaged in conducting international tours on which no service tax was being paid. During auditing by the department, it was pointed out that service tax leviable on out-bound international tour services was not being paid by the appellant. A show cause notice dated 16.10.2015, therefore, came to be issued in the matter raising a service tax demand of Rs.41,16,437/- for the period 2010-11 to 2012-13 (upto June 2012) and in the impugned order, this was confirmed and ordered to be recovered alongwith interest. Penalties under section 77 and 78 of the Finance Act, 1994 were also imposed. The present appeal is against this order.


3. The main grounds of appeal, in brief, are as follows-

3.1 Appellant states that he is engaged in providing outbound package tours, i.e., international tour packages; that irrespective of the fact that planning and scheduling of outbound tours is done within taxable territory, the actual performance, rendition and consumption of outbound tour package tour is outside the taxable territory; that service tax is levied based on the act of 'rendition of service' and not based on the 'location of service provider'.

3.2 Appellant refers to Hon'ble Supreme Court's decision in the case of All India Federation of Tax Practitioners [2007 (007) STR 0625 SC] to state that service tax is a destination based consumption tax on commercial activity and not on the business of service provider.

3.3 Appellant relies on CESTAT's decision in the case of Cox & Kings India Ltd v. CST [2014(35) STR 817 (Trib.-Del.)], which is also relied upon in the case of CST v. Paras Holidays Pvt Ltd [2016(44) STR 257 (Trib.-Del.)]. Appellant also cites Board's Circular No.B43/10/97-TRU dated 22.8.1997.

3.4 With regard to interest and penalty, appellant submits that when no service tax is payable, the question of levy of interest and penalty does not arise.



4. In the personal hearing held on 4.10.2017, CA Pooja Seth and CA Rinkal Patel appeared and reiterated the grounds of appeal. They also submitted citation of Cox & Kings India Ltd case [2014(35) STR 817 (Trib.-Del.)] and Board's Circular No. 43/10/97-TRU.

5. I have carefully gone through the appeal. The taxability of outbound package tours is under dispute. The adjudicating authority has confirmed a service tax demand of Rs.41,16,437/- for the period 2010-11, 2011-12 and 2012-13 (upto June-2012) in respect of international package tours conducted by the appellant. Appellant's contention is that such tours are out of the purview of service tax.

5.1 Having gone through the grounds of appeal and citations presented by the appellant, I note that the issue stands decided unambiguously in the case of Cox & Kings India Ltd v. CST [2014(35) STR 817 (Trib.-Del.)]. Para 21 of summary of conclusions sums up the decision arrived at by Hon'ble Tribunal and I reproduce hereunder sub-para (c) of para 21 that squarely applies in the matter on hand.

(c) The consideration received for operating and arranging outbound tours (provided by the appellants and consumed by tourists beyond the territory of India) is not liable to levy and collection of Service Tax under the provisions of the Act, since the taxable event is the provision of a taxable service; and not the pursuit of the profession, of a taxable service providers. The Act authorizes the levy and collection of tax for providing a destination and consumption based taxable service but does not authorize levy and collection of tax, for a service provided and consumed beyond the Indian territory;


5.2 The decision in the case of Cox & Kings India Ltd supra has been relied upon by the Principal Bench, New Delhi in the case of Commissioner of Service Tax, Delhi v. Paras Holidays Pvt Ltd [2016(44) STR 257 (Trib.-Del.)], wherein, Hon'ble Tribunal has recorded that the immunity to levy service tax on outbound tours is no longer *res integra* in view of precedent decision in the case of Cox & Kings India Ltd. Services rendered by tour operators in respect of outbound tourism do not attract service tax also stands clarified in the Board's letter F.No.43/10/97-TRU dated 22.8.1997.

6. In view of foregoing, the consideration received by the appellant against outbound tours is not leviable to service tax. Further, since there is no service tax payable, the question of paying interest or penalty does not arise. The impugned order is accordingly set aside and appeal is allowed.



7. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.



(उमा शंकर)

केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

Date:

Attested



(Sanwarmal Hudda)

Superintendent

Central Tax (Appeals)

Ahmedabad

By R.P.A.D.

To,

M/s Akshar Travels Pvt Ltd,

2nd Floor, City Centre, Nr. Swastik Cross Road,

Navrangpura, Ahmedabad

Copy to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Ahmedabad Zone.
2. The Commissioner of Central Tax, Ahmedabad - North.
3. The Additional Commissioner, Central Tax (System), Ahmedabad South.
4. The Asstt./Deputy Commissioner, Central Tax, Division-VII, Ahmedabad- North.
- ✓ 5. Guard File.
6. P.A.

